



Mid India Industries Limited

Corporate Office : 405, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 001 (India)
Phone : +91-731-2543402, 2433231 Fax : +91-731-2530916 • Email : csmidindia@gmail.com
CIN : L17124MP1991PLC006324

Date: 9th February, 2022

To,
The Secretary,
Corporate Relationship Department,
BSE Limited
Phirozejeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai-400001

Sub: - Submission of Copies of Newspaper Advertisement in respect to publication of Unaudited Financial Results for the 3rd Quarter and Nine Month year ended 31st December, 2021.

Ref:-MID INDIA INDUSTRIES LTD (BSE Script Code: 500277, ISIN: INE401C01018)

Dear Sir,


Pursuant to Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copies of Extracts of Unaudited Financial Results for 3rd Quarter and Nine Month ended 31st December, 2021 published in News Paper i.e. Free press Mumbai & Indore (in English) and Choutha Sansar (in Hindi) & Nav Shakti Mumbai on 9th February, 2022.

You are requested to please take the same on record.

Thanking You,
Yours Faithfully,

FOR MID INDIA INDUSTRIES LIMITED

Shailendra



CS SHAILENDRA AGRAWAL
COMPANY SECRETARY & COMPLIANCE OFFICER
ACS-25819

GP Petroleums Limited						
STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021						
Sl. No.	Particulars	Quarter Ended Dec 31 2021	Quarter Ended Sept 30 2021	Quarter Ended Dec 31 2020	Nine Months Ended Dec 31 2021	Nine Months Ended Dec 31 2020
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
1	Total Income from Operations	23,287.28	14,675.71	16,986.99	53,493.95	41,711.72
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,146.31	902.29	1,008.88	1,412.40	1,718.42
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	1,146.31	902.29	1,008.88	1,412.40	1,718.42
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	850.30	669.59	755.90	1,042.82	1,286.28
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	851.17	670.46	760.04	1,045.45	1,298.70
6	Equity Share Capital	2,549.22	2,549.22	2,549.22	2,549.22	2,549.22
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as per the Balance Sheet of Previous accounting year)	21,804.24	20,953.05	20,294.72	21,804.24	20,294.72
8	Earnings Per Share (FV of Rs. 5/- each) Basic and Diluted (INR)	1.67	1.31	1.48	2.05	2.52

Notes:
1. The Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended) and prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent possible.
2. The above Unaudited Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their respective meetings held on February 08, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the above results for the quarter and nine months ended December 31, 2021, in terms of Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015.
3. Total Finance costs are net of Foreign Exchange Gains earned.
4. The Company has made an assessment of the possible impact of Covid-19 on its financial results based on the information available upto the date of the approval of these financial results and reached the conclusion that no adjustment is required. Based on the assessment of the business and economic conditions, the Company expects to recover the carrying amounts of its assets.
5. The above is an extract of the detailed format of quarterly and financial year ended financial results filed with the stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of Financial results are available on stock exchanges websites (www.bseindia.com and www.nseindia.com).
6. Figures for the previous year/quarter/Nine Months have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

By Order of the Board For GP Petroleums Ltd
SD/-
Bhaswar Mukherjee
Director

Dated - February 08, 2022
Place - Mumbai

IN THE COURT OF SMALL CAUSES AT MUMBAI
R.A.E. SUIT NO. 191 OF 2021
Jenil Marketing Pvt. Ltd.
A Company incorporated, under Companies Act, 1956, and has its registered Address at 154, Raj Chambers, Alibhai Premji Marg, Grant Road East, Mumbai-400007. ... Plaintiffs

Versus
Mr. Sultanalya Merchant
full name not known, age not known, Occ: not known Adult, Indian Inhabitant of Mumbai, having Last known address at Shop No. 8, Ground Floor, 154, Raj Chambers, Alibhai Premji Marg, Grant Road East, Mumbai-400007. ... Defendants

The Defendant abovenamed, WHEREAS, the Plaintiff abovenamed have instituted the above suit against Defendant praying therein that the defendants be ordered and decreed to quit, vacate and hand over the quiet, vacant and peaceful possession of the suit premises being Shop No. 8, Ground Floor, Raj Chambers, Alibhai Premji Marg, Grant Road East, Mumbai-400007 and for such other and further reliefs, as prayed in the Plaintiff. THESE ARE to charge and command you Defendant abovenamed, to file your Written Statement in this Court within 30 days from the date of the receipt of the summons, and personally to appear before the Hon'ble Judge presiding in Court Room No. 25, 2nd Floor, New Annex Building, Small Causes Court, L.T. Marg, Mumbai-400002, on 28th February, 2022 at 2.45 p.m. in person or through authorized Pleader duly instructed to answer the Plaintiff of the Plaintiff abovenamed.

Take notice that, in default of your appearance of the day before mentioned, the suit will be heard and determined in your absence.

YOU may obtain the copy of the said Plaintiff from the Court Room No. 25 of this Court. Given under seal of the Court, this 12th day of January, 2022.

SD/-
Additional Registrar

इंडियन बैंक Indian Bank
ALLAHABAD
BHANDUP WEST BRANCH
POSESSION NOTICE
Under Rule 8(1) of security Interest (Enforcement) Rule 2002

Whereas, The undersigned being the authorised officer of INDIAN BANK, Ghatkopar Branch, Smeat Apartments, Upashraya Lane, Ghatkopar East, Mumbai 400 077, under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (act No. 54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(1)(d) read with rule 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002 issued a demand notice dated 17/09/2021 calling upon the borrower Mr. Prashant Hanumant Chavan and Guarantor Mr. Hanumant Chavan to repay the amount mentioned in the notice ₹ 10,76,294/- (Rupees Ten Lakhs Seventy Six Thousand Two Hundred Ninety Four only) as on 17/09/2021 within 60 days from the date of receipt of said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 17/09/2021

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 and 9 of the said rule on this 4th day of February 2022.

The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of Indian Bank Bhandup West Branch, Ground Floor, Sky City Retail, Lake Road, Near Krishna Cinema & Police Station, Bhandup (West), Mumbai- 400078 for an amount of ₹ 10,76,294/- (Rupees Ten Lakhs Seventy Six Thousand Two Hundred Ninety Four only) as on 17/09/2021 within 60 days from the date of receipt of said notice with future interest and incidental charges w.e.f. 17/09/2021

DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY
Flat No. 202, 2nd Floor, Building No. 03, Building 'Mahalaxmi Residency', S.No. 110 Hissa No. 3P, Plot No. 1, Near Rushabh Complex & Om Residence, Halar Nagar, Behind Vikas Height, Charni Pada, Rahal Village, Anjur Phata, Taluka Bhivandi, Thane- 421302. Bounded by: North By-Open, East By-Open, South By-Internal Road/Bungalow, West By-Open

SD/-
Authorised Officer,
for Indian Bank
Date : 04.02.2022

SYNTHIKO FOILS LIMITED CIN: L27200MH1984PLC033829 Regd Office: 84/1 84/2 Jamsar Road Jawhar Dist. Palghar - 401603. Email Id: foilslimited@rediffmail.com, Website: www.synthikofoils.com				
UN-AUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED 31.12.2021				
Sr. No.	Particulars	Quarter ended 31.12.2021	Quarter ended 30.09.2021	Quarter ended 31.12.2020
		Un-Audited		
1	Total Income from Operations	877.77	690.23	527.26
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	34.40	44.10	6.77
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	34.40	44.10	6.77
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	25.30	32.94	5.01
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]			
6	Equity Share Capital	87.00	87.00	87.00
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			
8	Earnings Per Share (of Rs. 5/- each) (for continuing and discontinued operations) - (a) Basic (b) Diluted	* 1.45 * 1.45	* 1.84 * 1.84	* 0.29 * 0.29

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly/Annual Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange at www.bseindia.com (s) and the Company's website.

For Synthiko Foils Limited
SD/-
Bhavesh Dhadia
Whole - Time Director | DIN : 00726076

Date: 08/02/2022
Place: Palghar

PUBLIC NOTICE

We are investigating the title of (1) MR. ASHWIN RAMESH, (PAN: AABPA0414B), and (2) MRS. SANGEETA ASHWIN, (PAN: AKAPM2892C), in respect of the shares and premises more particularly described in the Schedule hereunder written ("Said Premises").

Any person claiming any right, title or interest in respect of the Said Premises and/or any part thereof, as and by way of sale, exchange, transfer, lease, sub-lease, mortgage, gift, tenancy, leave and license, (save and except the license granted in favour of Hathway Digital Limited), trust, inheritance, bequest, possession, hypothecation, charge, lien, easement or otherwise howsoever are hereby called upon to make the same known in writing to the undersigned by email at the email address mail@ddcm.in and also with a hard copy of such writing sent to the address mentioned herein below, within a period of 15 days from the date of publication hereof, with documentary proof/evidence thereof, otherwise any such purported claims/objections, interests or demands shall be deemed to have been waived and/or abandoned for all intents and purposes and the transaction will be proceeded with accordingly.

THE SCHEDULE ABOVE REFERRED TO:

All the right, title and interest in premises being Unit No. 4, admeasuring approximately 61.00 sq. mtrs. (carpet area), situated on the 10th Floor of the building known as "Trade World B" wing, situate at Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai 400 013, together with all rights attached thereto, including in the "Trade World Premises Co-operative Society Limited" and together with 1 (one) open car parking space situated in the compound of the said building, lying being and situate on all that piece and parcel of land or ground bearing C.S. No. 448 of the Lower Parel Division, in the Registration District and Sub District of Mumbai.

Dated this 9th day of February 2022.

Desai Desai Carrimjee & Mulla
(R. N. Mulla)
81, Free Press House,
215, Free Press Journal Marg,
Nariman Point, Mumbai 400021.

NIBE LIMITED (Formerly known as Kavita Fabrics Limited) CIN : L34100GJ2005PLC046929						
Extract of Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months Ended December 31, 2021						
Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Previous Year Ended	
	31/12/2021	30/09/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020	31/03/2021
Total Income from Operations	776.75	331.66	0.00	1,313.38	2.64	251.32
Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	(203.47)	(119.59)	(8.76)	(304.33)	(18.28)	18.19
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(204.61)	(119.59)	(8.76)	(304.33)	(18.28)	18.19
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(204.61)	(115.04)	(8.77)	(305.55)	(18.30)	12.51
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(204.61)	(114.07)	(8.77)	(305.55)	(18.30)	12.87
Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10 each)	1041.87	1041.87	1041.87	1041.87	1041.87	1041.87
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-1.96	-1.1	-0.08	-2.93	-0.18	0.12
Earnings per equity share (of Rs. 10 each)						
Basic and Diluted	(0.08)	(0.09)	0.02	(0.18)	0.07	(0.46)

Note:
1. The Audit Committee has reviewed the above results and the Board of Directors has approved the above results at their respective meetings held on February 07, 2022. The Statutory Auditors of the Company have carried out a Limited Review of the aforesaid results.
2. The above is an extract of the detailed format of financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 filed with the Stock Exchanges pursuant to Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 are available on the Stock Exchanges' website (www.bseindia.com).

For Nibe Limited
SD/-
Ganesh Nibe
Managing Director

Place : Pune
Date : February 08, 2022

PENINSULA LAND LIMITED						
Regd. Office : 503, 5th Floor, Peninsula Tower-1, Peninsula Corporate Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai-400013 Phone : +91 22 6622 9300; Fax : +91 22 6622 9302, Email : investor@peninsula.co.in; Website : www.peninsula.co.in CIN : L17120MH1871PLC000005						
Extract of the Unaudited Financial Results for the Quarter and nine months ended December 31, 2021						
Particulars	Standalone					
	Quarter ended		Nine months ended		Year ended	
	31-Dec-21	30-Sep-21	31-Dec-20	31-Dec-21	31-Dec-20	31-Mar-21
Total Revenue From Operations (Net)	2,406	7,138	2,673	11,860	7,281	10,519
Net Profit/(Loss) from ordinary activities (before Tax, Exceptional items)	(479)	(432)	(2,225)	(2,064)	(6,760)	(10,875)
Net Profit/(Loss) from ordinary activities before Tax (after Exceptional items)	(780)	(6,707)	(3,743)	(7,989)	(7,711)	(7,946)
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional items)	(780)	(6,707)	(3,743)	(7,989)	(7,711)	(8,071)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(767)	(6,694)	(3,720)	(7,950)	(7,642)	(8,020)
Equity Share Capital (Face value of Rs. 2/- per share)	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) As Shown In The Audited Balance Sheet Of The Previous Year (Standalone basis)						
Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (For continuing and discontinued operations)	(0.28)	(2.40)	(1.34)	(2.86)	(2.76)	(2.89)
Basic : Diluted :	(0.28) (0.28)	(2.40) (2.40)	(1.34) (1.34)	(2.86) (2.86)	(2.76) (2.76)	(2.89) (2.89)

Particulars	Consolidated					
	Quarter ended		Nine months ended		Year ended	
	31-Dec-21	30-Sep-21	31-Dec-20	31-Dec-21	31-Dec-20	31-Mar-21
Total Revenue From Operations (Net)	11,761	17,297	6,561	34,868	15,403	27,497
Net Profit/(Loss) from ordinary activities (before Tax, Exceptional items)	759	835	(3,859)	105	(10,120)	(15,181)
Net Profit/(Loss) from ordinary activities before Tax (after Exceptional items)	417	(4,673)	(3,152)	(5,365)	(5,165)	(4,295)
Net Profit/(Loss) for the period after Tax (after Exceptional items)	356	(4,816)	(3,096)	(5,569)	(4,768)	(3,113)
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)] attributable to Owners of the company	364	(4,847)	(3,018)	(5,588)	(4,597)	(3,033)
Equity Share Capital (Face value of Rs. 2/- per share)	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590	5,590
Other Equity (Excluding Revaluation Reserve) As Shown In The Audited Balance Sheet Of The Previous Year						
Earning Per Share (of Rs. 2/- each) (For continuing and discontinued operations)						
Basic : Diluted :	0.12 0.12	(1.74) (1.74)	(1.09) (1.09)	(2.02) (2.02)	(1.67) (1.67)	(1.10) (1.10)

* The Company does not have any extraordinary item to report for the above periods

NOTE :
1. The above is an extract of the detailed format of the Quarterly Financial results for the Quarter and nine months ended December 31, 2021, filed with the stock exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations 2015. The full format of the said results are available on the websites of the stock exchanges (www.bseindia.com / www.nseindia.com) and on the website of the company (www.peninsula.co.in).
2. The financial results for the quarter and nine months ended December 31, 2021 have been reviewed by the Audit Committee of the Board and subsequently approved by the Board of Directors at its meeting held on February 7, 2022 in terms of Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. Further, the same have been subjected to review by the statutory auditors of the Company.

For and on behalf of the Board of Directors
Peninsula Land Limited
SD/-
Rajeev A. Piramal
Executive Vice Chairman & Managing Director

Mumbai : February 7, 2022

HINDOOSTAN MILLS LTD. CIN : L17121MH1904PLC000195 Registered Off.: Shivsagar Estate "D" Block, 8 th floor, Dr. Annie Besant Road, Worli, Mumbai 400018 Phone : 022 61240700 Email : contact@hindoostan.com www.hindoostan.com				
EXTRACT OF STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER 2021				
Particulars	Quarter ended 31 st December 2021	Nine Months ended 31 st December 2021	Quarter ended 31 st December 2020	Quarter ended 31 st December 2020
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)
Total income from operations (net)	2,864.21	7,390.07	1,779.25	1,779.25
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items) from continuing operations	17.48	(85.56)	(135.35)	(135.35)
Net Profit/(Loss) for the period (before tax and Exceptional items) from discontinued operations	-	-	1,037.09	1,037.09
Net Profit/(Loss) for the period before tax from continuing operations	17.48	(85.56)	1,206.72	1,206.72
Net Profit/(Loss) for the period before tax from discontinued operations	-	-	1,037.09	1,037.09
Net Profit/(Loss) for the period after tax from continuing operations	17.48	(85.56)	1,206.72	1,206.72
Net Profit/(Loss) for the period after tax from discontinued operations	-	-	1,037.09	1,037.09
Total Comprehensive Income for the period	14.23	(95.31)	2,246.69	2,246.69
Equity Share Capital	166.45	166.45	166.45	166.45
Earning Per Share from continuing operations (of ₹ 10/- each)	1.05	(5.14)	72.50	72.50
Basic : Diluted :	1.05 1.05	(5.14) (5.14)	72.50 72.50	72.50 72.50
Earning Per Share from discontinued operations (of ₹ 10/- each)	-	-	62.30	62.30
Basic : Diluted :	- -	- -	62.30 62.30	62.30 62.30

Note:
The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website www.bseindia.com and the Company's website www.hindoostan.com.

For HINDOOSTAN MILLS LTD.
SD/-
KHUSHAL THACKERSEY
EXECUTIVE DIRECTOR

Place : Mumbai
Date : February 08, 2022

Mid India Industries Limited CIN: L17124MP1991PLC006324			
Regd. Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandasaur-458 001 (M.P.) Corporate Office: 405, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 001 (M.P.) Phone: 0731-2543402, 2433231, Email: cmsmidindia@gmail.com, www.midindiaindustries.com			
Extract of Un-audited Financial Results for Quarter / Nine Months Ended 31st December, 2021 See Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations 2015			
Particulars	Quarter Ended 31.12.2021 (Unaudited)	Corresponding 3 Months Ended in Previous Year 31.12.2020 (Unaudited)	Year to Date Figures 31.12.2021 (Unaudited)
	Total Income from Operations (Net)	606.12	19.18
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	41.45	-6.85	37.71
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	41.6	-6.76	38.04
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	35.67	-6.76	32.11
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	35.67	-6.76	32.11
Equity Share Capital	1630	1630	1630
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)	0.22	0.2	0.2
Basic : (in ₹) Diluted : (in ₹)	0.22 0.22	0.2 0.2	0.2 0.2

Note: The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 is available on the website of the Company i.e. www.midindiaindustries.com and on Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com.

For Mid India Industries Limited
SD/-
Sanjay Singh (Managing Director)
DIN : 01548011

Place: Indore
Date : 07.02.2022

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

TAKE NOTICE THAT our clients are under process of purchasing "Flat No. 7F on the Seventh Floor of the Wing A along with exclusive right to use one car parking space no. 438 at (P2) Level of the Wintergreen C. H. S. Ltd., situated at Rivali Park, CCI Compound, Borivali (East), Mumbai 400068" constructed on land(s) bearing CTS No. 163-A & 165 situate at Revenue Village Magathane, Taluka Borivali in the registration district and sub district of Mumbai Suburban ("Flat") from (1) Mr. Karim R. Shah alias Karim Rahim Shah & (2) Mr. Irfan K. Shah alias Irfan Karim Shah. TAKE FURTHER NOTICE THAT ANY PERSON, INSTITUTION/S (financial or otherwise) having any claim or right in respect of the said Flat by way of inheritance, share, sale, mortgage, lease, lien, license, gift, possession or encumbrance howsoever or otherwise is hereby required to intimate to the undersigned within 14 (fourteen) days from the date of publication of this notice of his/her/their such claims/s, if any, with all supporting documents to the undersigned, failing which the transaction shall be completed without reference to such claim and the claims, if any, of such person shall be treated as waived and not binding on our clients whatsoever.

Prem Pandey - Advocate
kamdhenu associates - Advocates & Legal Advisers
#13-14, Gokul Horizon, Opp. Gundecha's Trillium, Thakur Village, Kandivali (East), Mumbai 400101.

RENAISSANCE GLOBAL LIMITED CIN L36911MH1989PLC054498 Regd Office : Plot Nos. 36A & 37, SEEPZ-SEZ, Andheri (East), Mumbai - 400 096.							
UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / NINE MONTHS ENDED DECEMBER 31, 2021							
Sr No.	Particulars	Quarter Ended		Nine Months Ended		Year Ended	
		Dec 31, 2021	Sept 30, 2021	Dec 31, 2020	Dec 31, 2021	Dec 31, 2020	Mar 31, 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations (net)	77,494.58	47,789.16	74,146.43	1,67,243.50	1,46,311.83	2,04,735.86
2	Net Profit before tax and Exceptional items	5,053.09	3,702.85	3,393.16	11,555.00	3,965.97	5,923.19
3	Net Profit after tax and Exceptional items	3,299.62	2,829.23	2,559.81	8,509.71	3,057.33	4,625.52
4	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other Comprehensive Income (after tax)]	3,087.02	3,264.43	4,922.89	8,017.76	13,377.59	15,110.63

WASHINGTON: President Joe Biden's top science adviser Eric Lander resigned, hours after the White House confirmed that an internal investigation found credible evidence that he mistreated his staff, marking the first Cabinet-level departure of the Biden administration. An internal review last year, prompted by a workplace complaint, found evidence that Lander, the director of the Office of Science and Technology Policy and science adviser to Biden, bullied staffers and treated them disrespectfully.



Now, truckers from UK, US, Aus rise against Covid curbs

AGENCIES / Ottawa

Truckers from England, Australia, Netherlands and New Zealand have begun to or-

see what will become a big global movement to end these mandates," Brian Brase, co-organizer of the US protest, told Fox News Digi-

ing protests against the vaccine mandates that have overwhelmed the nation's capital.

The current wave of protests against Covid measures started when thousands of demonstrators gathered in Ottawa expressing strong opposition to vaccine mandates for truckers crossing the US-Canada border.

WestJet Airlines Ltd. has cancelled 20 per cent of its flights in March amid continuing uncertainty over trucker protest, The Globe and Mail newspaper reported.

Texas shooting: USAF to pay \$230mn

WASHINGTON: A judge has ordered the US Air Force to pay more than 230 million in damages to survivors and victims' families of a 2017 Texas church shooting. In an ongoing civil lawsuit, US District

Judge Xavier Rodriguez on Monday ruled that the federal government failed to flag a conviction that might have kept the gunman from legally buying the weapon used in the shooting, reports Xinhua news agency. On November 5, 2017, 26 people were killed and 22 others injured when Devin Patrick Kelley opened

fire during a Sunday service at First Baptist Church of Sutherland Springs. Kelley died of an apparent self-inflicted gunshot wound afterwards. Rodriguez had ruled in July 2021 that the Air Force was "60 per cent liable" for the tragedy since Kelley had threatened mass violence while in the Air Force before the attack.



Protesters and supporters play street hockey as they continue to protest vaccine mandates implemented by Prime Minister Justin Trudeau on Monday in Ottawa, Canada.

ganise their own version of "Freedom Convoy" following the protests in Canada's Ottawa against Covid vaccination mandates.

Not only these countries, but another group of truckers is planning a protest in the United States, driving to the US Capitol in Washington, DC reported Fox News.

"I think you're starting to

tal on Sunday.

"It's a violation of your human rights to be mandated to take this vaccine. If you want it, go get it, but is mandated to get it, we're standing up against that. We think it's wrong", he added.

Earlier, Canada's two main airlines have demanded that Ottawa reverse Covid travel restrictions amid the ongo-

Global C-19 daily tracker

Country	Cases	Deaths
US	156,487	1,269
India	67,597	1,173
France	46,001	417
UK	57,623	45
Russia	171,905	609
Brazil	68,540	431
Argentina	25,406	259
Italy	41,247	326

Updated: Tuesday morning
Source: Worldometer

'Covid infections increase risk of heart conditions'

WASHINGTON: People who have had Covid are at increased risk of developing cardiovascular complications within first month to a year, according to a study in the US. The study found that such complications include disruptive heart rhythms, inflammation of the heart, blood clots, stroke, coronary artery disease, heart attack, heart failure or even death.

DASHBOARD

- Hong Kong limits private gatherings to fight Covid
- Bell at Washington National Cathedral tolls for 905K Covid victims

Lancet: Vaccine protection better against severe C-19

AGENCIES / London

The vaccine-induced protection against SARS-CoV-2 infection wanes within a few months, but protection against severe Covid appears to be better maintained, according to a study published in The Lancet journal. Researchers noted that the protection wanes at different speeds depending on the type of vaccine used. "The bad news is that the protection against infection seems to be diminished by seven months after the second dose of vaccine," said Peter Nordstrom, a professor at Umea University in Sweden. "The good news, however, is that the protection against a severe infection that leads to hospitalisation or death seems to be better maintained. Vaccination is therefore very wise and important," Nordstrom said.

Sri Lankan Navy arrests 11 Indian fishermen

AGENCIES / Colombo

The Sri Lankan Navy has arrested 11 Indian fishermen and seized three fishing trawlers for allegedly

anisms should meet early. Recognised the importance of greater tourism for economic recovery. Also noted the importance of P2P linkages through greater connectivity," Jaishankar said.

The arrests are part of the Navy's patrols to cut illegal fishing in the Sri Lankan waters to minimise impact from poaching on the local fishermen

The arrest of 11 Indian fishermen comes as the local immigration officials are making arrangements to repatriate the 56 Indian fishermen released by a Sri Lankan court in the northern Jaffna peninsula last month.

poaching in the country's territorial waters, an official statement said on Tuesday.

The arrests were made close to Delft Island in the north on Monday. They were indulging in bottom trawling, the Navy said.

The arrests are part of the Navy's patrols to cut illegal fishing in the Sri Lankan waters to minimise impact from poaching on the local fishermen and sustainability of fishery resources in Sri Lanka, the statement said.

The fishermen issue is a contentious one in ties between the two countries.

The issue of fishermen also figured in the talks between External Affairs Minister S Jaishankar and Sri Lankan counterpart GL Peiris in New Delhi on Monday. Peiris is on a three-day official visit to India.

"Exchanged views on the fishermen issue and agreed that bilateral mech-

यूनियन बैंक Union Bank of India

POSSESSION NOTICE [Rule - 8 (1)]

WHEREAS, The undersigned being the Authorised Officer of the Union Bank of India under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a Demand Notice dated mentioned below calling upon the Borrower's/Guarantor's to repay the Amounts (mentioned below) within 60 days from the date of receipt of the said Notice.

The borrowers as well as guarantors having failed to repay the full amount, notice is hereby given to the Borrower's / Guarantor's & the public in general that the undersigned has taken possession of the properties described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13 (4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on dates mentioned below.

The Borrower's/Guarantor's in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the below mentioned properties and any dealings with the properties will be subject to the charge of Union Bank of India, Khategaon for an amount mentioned herein below & interest thereon

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of the Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Branch & Name of Borrower	Description of Property of Borrower	Outstanding Amount as per Demand notice
Khategaon Branch, Distt. Dewas	All that part and parcel of Land & Building area about 650 sq. Feet, part of Survey No. 454/1/2/Min 13 (Old No. 454/1/2), Sawdekar Marg, Koyla Mohalla, Khategaon, Distt. Dewas (M.P.) in the name of Sri Shyam Lal Chawre. Boundaries: North-Plot of Sita Ram Khare, South-Road, East-House of Banshalil Chawre, West-House of Shivram Chawre	₹ 5,29,594.02 + Interest & Charges Demand Notice Dt. 07.04.2021 Possession Date 03/02/2022

Date: 03-02-2022 Authorised Officer, Union Bank of India, Bhopal

क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

स्क्रीम नं.-78 सी, पार्क-2, अरण्य, विजय नगर, इन्दौर-452010 (म.प्र.)
फोन: 0731-2555436; e-mail-ropcb-indore@mp.gov.in

क्र. 381/लौ.सु.शाखा/2022 इन्दौर, दिनांक 07.02.2022

लोक सुनवाई की आम सूचना

मेसर्स श्री कृष्ण इंटरवॉल्वेस कम्पैल की मूरम और पत्नर खदान खं. नं. 2470, गांव कम्पैल, तहसील खुडैल, जिला इन्दौर में कम्पैल की मूरम और पत्नर खदान प्रस्तावित की गई है। इस प्रोजेक्ट परदे का क्षेत्र: 4.0 हेक्टेयर है। उक्त प्रोजेक्ट की पर्यावरण 'स्कैनिंग' बाबत पर्यावरण प्रभाव अध्ययन अधिसूचना क्रमांक 1533 दिनांक 14.09.2006 के प्राधानों के अंतर्गत आवेदन प्राप्त हुए हैं। अंतः प्रोजेक्ट हेतु उपरोक्त अधिसूचना के परिपालन में लोक सुनवाई कलेक्टर इन्दौर अथवा उनके प्रतिनिधि की अध्यक्षता में दिनांक 11.03.2022 को संचालन होगी। प्रस्तावित लोक सुनवाई का दिवस निम्नानुसार है:-

जिला/तहसील	लोक सुनवाई का स्थान	दिनांक	समय
तहसील-खुडैल जिला-इन्दौर	खदान परिसर, ग्राम कम्पैल, तहसील-खुडैल, जिला इन्दौर	11.03.2022	दोपहर 11.30 बजे से 2.30 बजे तक।

प्रस्तावित प्रोजेक्ट की पर्यावरण प्रभाव अध्ययन रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार सर्वसंबंधितों के अलोकनार्थ इस कार्यालय के अतिरिक्त, कलेक्टर कार्यालय, इन्दौर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत इन्दौर, जिला व्याखर एवं उद्योग केन्द्र, इन्दौर एवं पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय पर्यावरण भवन, ई-5, अरुण कॉलोनी, भोपाल म.प्र. में सर्वसंबंधितों के अलोकनार्थ उपलब्ध है तथा बोर्ड की वेबसाइट 'mppcb.nic.in' पर भी देखा जा सकता है।

उपरोक्त प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में जिस किसी व्यक्ति को पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण संबंधी सुझाव, विचार एवं टीका-टिप्पणी देना हो, तो इसे क्षेत्रीय कार्यालय, म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, स्क्रीम नं.-78-सी, अरण्य विजय नगर, इन्दौर को सूचना प्रेषण कर 10 दिनों से 30 दिनों के अंदर अथवा लोक सुनवाई के दौरान लिखित अथवा मौखिक रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं।

आर.के. गुप्ता
क्षेत्रीय अधिकारी, इन्दौर

State Bank of India First Floor, 5, Y.N. Road, Indore Ph: 0731-2437461-64, 2437467-84
Stressed Assets Recovery Branch Email:- sbi.10007@sbi.co.in

[Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, The undersigned being the Authorised Officer of the State Bank of India under Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated below calling upon the below mentioned Borrower/Guarantor(s) to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The Borrower/Guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower/ Guarantor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the date mentioned below. The Borrower/ Guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the State Bank of India for an amount herein mentioned below and further interest, costs etc. thereon. The Borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

Name of Borrower/Guarantor	Notice Amount ₹	Demand Notice Date Possession Date	Description of Immovable Property
1. M/s Megha Graphics, Proprietor Shri Dilip Singh Pawar S/o Shri Bheru Singh Pawar & Guarantor Smt. Mona Pawar W/o Shri Dilip Singh Pawar	52,85,235.03	11.10.2021	All that part and parcel of the property consisting of Residential House situated at Plot No. 515, Shri Seth Mishrilal Nagar, Near Kaila Devi Temple, Dewas (M.P.), Plot area 2000 sq.ft., belonging to Smt. Mona Pawar W/o Shri Dilip Singh Pawar & Shri Dilip Singh Pawar S/o Shri Bheru Singh Pawar.
2. Mona Pawar W/o Shri Dilip Singh Pawar & Dilip Singh Pawar S/o Bheru Singh Pawar	66,65,790.17	03.02.2022	Bounded by: East: Colony Pathway, West: Colony Road, North: Plot No. 514, South: Colony Road (Covered under Registered Sale Deed No MP108942017A1025276, dated 20.01.2017)
TOTAL	1,19,51,025.20		

+ Interest from 12.10.2021 & Costs etc.

Date: 03.02.2022, Place: Dewas Authorised Officer, State Bank of India

GODHA CABCON & INSULATION LIMITED
CIN: L31909MP2016PLC041592
Register Office: 36-D, Sector -B, SanwerRoad, Industrial Area, Indore (MP)
E-Mail:- info@godhacabcon.com Website: www.godhacabcon.com

Notice of Postal Ballot Remote e-voting

Members of Godha Cabcon & Insulation Limited hereby informed that the Company has on Monday, February 7, 2022 completed the dispatch of the Postal Ballot Notice to all the members whose name appears in the Register of Members/ List of Beneficial Owners as on Friday February 4, 2022 through (a) electronic mail to the members whose email IDs are registered in the records of depository participants for seeking approval of the members of the Company by e-voting by electronic means for Sub-division (stock split) of every 1 (One) equity share of face value of Rs. 10/- each into 10 (Ten) equity shares of Face Value of Re. 1/- each and to consider and approve alteration of Capital Clause of the Memorandum of Association of the Company.

The Company has engaged the services of KFin Technologies Private Limited ("KFin"), the Registrar & Share Transfer Agent of the Company for providing e-voting platform for the above resolutions. Pursuant to the MCA Circulars, the Notice has been sent (i.e. February 7, 2022) only by email to all the members whose e-mail addresses are registered with the Company or with the depositories/depository participants or with KFin Technologies Private Limited ("KFin") and whose names appear in the Register of Members as on cut-off date of Friday, February 4, 2022. A person who is not a member as on the cut-off date should treat the Notice for informational purposes only. In this regard, your Demat Account/Folio Number has been enrolled for your participation in e-voting on resolution proposed by the Company on the following voting period (both days inclusive):

Commencement of remote e-voting	Thursday, 10 February, 2022 (from 9.00 a.m.)
End of remote e-voting	Friday, March 11, 2022 (till 5.00 p.m.)

During this period, members of the Company may cast their vote electronically through remote e-voting by accessing the website https://evoting.karvy.com and logging-in by using the user ID and password.

The remote e-voting module shall be disabled by KFin Technologies Private Limited ("KFin") for voting at Friday, March 11, 2022 (till 5.00 p.m.). Once the vote on the resolution is cast by a member, he or she will not be allowed to change it subsequently. The detailed procedure and instructions for remote e-voting are set out in the Notice and the members may refer the detailed procedure for e-voting after login as above on the KFin Technologies Private Limited ("KFin") website. Please read the instructions carefully before exercising your vote.

Detail Notice of Postal Ballot is available in the website of NSE and K finance.

Registered office: 36-D, Sector B Sanwer Road, Industrial Area Indore MP 452006
Place: Indore
Date: February 8, 2022

By order of the Board
Godha Cabcon & Insulation Limited
Rahul Verma
Company Secretary

Mid India Industries Limited
CIN: L17124MP1991PLC006324

Regd. Office: Textile Mill Area, Station Road, Mandasaur-458 001 (M.P.)
Corporate Office: 405, Princess Centre, 6/3, New Palasia, Indore-452 001 (M.P.)
Phone: 0731-2543402, 2433231, Email: csmidindia@gmail.com, www.midindiaindustries.com

Extract of Un-audited Financial Results for Quarter / Nine Months Ended 31st December, 2021
See Regulation 47(1)(b) of the SEBI (LODR) Regulations 2015
₹ in Lakhs (Except Earnings Per Share)

Particulars	Quarter Ended 31.12.2021 (Unaudited)	Corresponding 3 Months Ended in Previous Year 31.12.2020 (Unaudited)	Year to Date Figures 31.12.2021 (Unaudited)
Total Income from Operations (Net)	606.12	19.18	946.3
Net Profit / (Loss) for the period (before tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	41.45	-6.85	37.71
Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	41.6	-6.76	38.04
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and / or Extraordinary items)	35.67	-6.76	32.11
Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	35.67	-6.76	32.11
Equity Share Capital	1630	1630	1630
Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-
Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations)			
Basic : (in ₹)	0.22	0.2	0.2
Diluted: (in ₹)	0.22	0.2	0.2

Note: The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Quarter and Nine Months ended December 31, 2021 is available on the website of the Company i.e. www.midindiaindustries.com and on Stock Exchanges i.e. www.bseindia.com.

For Mid India Industries Limited
Sd/-
Sanjay Singh (Managing Director)
DIN : 01548011

Place: Indore
Date: 07.02.2022

pnb पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
Circle SASTRA Centre Ujjain, 13/1, 13/2 Mahakal Vanijiya Kendra, Nanakheda, Ujjain 456010. (MP)

POSSESSION NOTICE Rule 8(1) For Immovable Property

Whereas, the undersigned being the Authorised Officer of the Punjab National Bank under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, and in exercise of powers conferred under Section 13 read with rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued a demand notice(s) on the dates mentioned against account calling upon the respective Borrower & Guarantor to repay the amount as mentioned against account within 60 days from the date of notice(s)/ date of receipt of the said notice(s). The Borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken **Symbolic Possession** of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub-section (4) of Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act in respect of time available to redeem the secured assets. The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property will be subject to the charge of Punjab National Bank for the amounts and interest thereon.

Sr. No.	Name of the Borrower/ Co Borrower/Guarantor	Description of Mortgaged Property & Name of Property Owner	Date of Demand notice Date of Possession	Outstanding Amount
1.	Shri Arjun Singh S/o Shri Bhagwat Singh Branch : Bajrangpura, Dewas	All that part and parcel of the property consisting of House / Plot No. 25 HIG Mukherjee Nagar Main Road Dewas (M.P.). Total Area 180.00 Sq.mt. Owner : Shri Arjun Singh S/o Shri Bhagwat Singh, Bounded by:- East : Plot No. 24 LIG, West : 30 mt. Wide Road, North : House No. 24 HIG Sr., South : House No. 26 HIG Sr.	05.04.2021 03.02.2022	₹ 44,04,538.99 + Interest & Other Charges
2.	M/s General Electric & Industries Service Prop. Pratap Rao Awate S/o Late Shri Ram Rao Awate, Shri Manish Awate S/o Pratap Rao Awate Branch: Bajrangpura, Dewas	Primary Security : Hypo of Stocks. Collateral Security : All that part and parcel of the property consisting of House / Plot No. 749 (New 57) Yamuna Niwas, Kati Ghati Bada Bazar Dewas (M.P.) 455001. Total Area 120.8 Sq.mt. in the name of Shri Prakash Rao Awate S/o Late Shri Ramrao Awate. Bounded by:- East : Remaining Part of Yamuna Niwas, West : Govt. Road, North : House of Madanlal Kaseria, South : Govt. Lane	08.04.2021 03.02.2022	₹ 17,06,043.16 + Interest & Other Charges

Place : Ujjain
Date : 09-02-2022

Authorised Officer
Punjab National Bank

Bank of India रिश्तों की जमापूंजी Relationship beyond banking

ZONAL OFFICE : Star House, Plot No. 9-RC Scheme No. 134, MR-10, Near Star Chouraha, INDORE - 452 010, Ph.: 2445122-117-147

SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES

E-AUCTION SALE NOTICE for sale of Immovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 9 (1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that immovable properties as described in column 3 in table hereunder mortgaged/charged to Bank of India (Secured Creditor), the constructive/physical (Whichever is applicable as stated in column no. 5 of the table hereunder) possession of which has been taken by the Authorised Officer of Bank of India (Secured Creditor), will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" on 25.02.2022 for recovery of the amount(s), as stated in column 4 of the table hereunder, due to Bank of India (the secured creditor) from the borrowers/guarantors as mentioned in column 2 of the following table. The reserve price and earnest money deposit will also be applicable as stated in the following table in column 6 & 7 respectively:

Name of Branch (1)	Name of Borrowers/ Guarantors (2)	Description of Property & Owner Name (3)	Dates of Demand Notice U/s 13(2) & Amount (4)	Date of Possession/Types of Possession (5)	Reserve Price(₹) (6)	Earnest Money Deposit (7)
Schema No. 134 0731-2445199	M/s BRT Electric Private Limited Director / Guarantor : 1. Mr. Ramchandra Notani S/o Mr. Mohandas Notani. 2) Mr. Tarun Notani S/o Mr. Ramchandra Notani. 3) Mrs. Barkha Notani W/o Mr. Ramchandra Notani	House No. 37 L.I.G. (Main Road Side) & 40/240 E.W.S. (Lane Side but Adjoined Property), at Indira Nagar Colony, Ward No. 05, Mohan Dudd Dairy, Near Bank of India Indira Nagar Branch, Ujjain, M.P. Area -1651.72 Sq. Ft., Standing in the name of Mrs. Barkha Notani W/o Mr. Ramchandra Notani & Mr. Ramchandra Notani S/o Mr. Mohandas Notani. Boundaries- East:House of Dr. Soni & Shri Maheshwari, West: House of Shri Patidar, North : Road, South : Gali	05.04.2021 ₹ 1,07,08,473.67 + Interest + Other Charges	12.11.2021 Symbolic	₹ 110.00 Lacs	₹ 11.00 Lacs

The Purchaser Shall bear the stamp duty, Charges including those sale certificate/s, registration charges, TDS, all Statutory dues payable to the government, taxes and rates and outgoings both existing and future relating to the properties. The sale certificate will be issued only in the name of successful bidder.

For detailed terms & conditions of the sale, please refer to the link provided in Bank of India (Secured Creditors) website i.e. <https://www.bankofindia.co.in>

Website address of our e-Auctions Service Provider - <https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/index.jsp> Bidder may visit <https://www.ibapi.in> where "Guidelines" for bidders are available with educational videos. Bidders have to complete following formalities well in advance:

Step 1 : Bidder / Purchaser Registration : Bidder to register on e-auction Platform (link give above) using his mobile number and email-id
Step 2 : KYC Verification : Bidder to upload requisite KYC documents. KYC documents shall be verified by e-Auction service provider (may take 2 working days)
Step 3 : Transfer of EMD amount to Bidder Global EMD Wallet : Online / off-line transfer of fund using NEFT/Transfer, using challan generated on e-Auction Platform
Step 4 : Bidding process and Auction Results : Interested Registered bidders can bid online on e-auction platform after completing step 1, 2 and 3. Please note step 1 to Step 2 should be completed by bidder well in advance, before e-auction date.

Bids shall be submitted through online procedure only.
Bidders shall be deemed to have read & understood the terms & conditions of sale & be bound by them.

Date: 09/02/2022, Place : INDORE

Authorized Officer, BANK OF INDIA

